



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

1 चैत्र, 1941 (श०)

संख्या- 259 राँची, शुक्रवार, 22 मार्च, 2019 (ई०)

---

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----

संकल्प

18 मार्च, 2019

संख्या-5/आरोप-1-167/2017-1373 (HRMS)-- श्री संतोष कुमार प्रजापति, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-पश्चिमी सिंहभूम), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर, सरायकेला-खरसावाँ के विरुद्ध सोलर लाईट तथा पानी टैंकर के क्रय में वित्त विभागीय संकल्प सं०-221/वि०, दिनांक 03.02.2011 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बिना निविदा निस्तारित किये मात्र कोटेशन के आधार पर क्रय करने संबंधी आरोप प्रपत्र- 'क' में गठित कर ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5385, दिनांक 23.10.2017 द्वारा उपलब्ध कराया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-11861, दिनांक 04.12.2017 द्वारा श्री प्रजापति से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इन्होंने पत्र, दिनांक 08.01.2018 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया।

श्री प्रजापति के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-717, दिनांक 24.01.2018 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से मंतव्य की माँग की गई। उक्त के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-4419, दिनांक 24.10.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया कि उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री प्रजापति के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने की अनुशंसा की जाती है, किन्तु पंचायत स्तरीय योजनाओं के क्रियान्वयन में हुई अनियमितता से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की जवाबदेही से मुक्त नहीं किया जा सकता है।

श्री प्रजापति के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत श्री संतोष कुमार प्रजापति, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर, सरायकेला-खरसावाँ को “भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी” के साथ आरोप से मुक्त किया जाता है।

| Sr No. | Employee Name<br>G.P.F. No.            | Decision of the Competent authority   |
|--------|--|---|
| 1      | 2                                      | 3   |
| 1      | SANTOSH KUMAR PRAJAPATI<br>JHK/JAS/177 | श्री संतोष कुमार प्रजापति, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजनगर, सरायकेला-खरसावाँ को “भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी” के साथ आरोप से मुक्त किया जाता है। |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अशोक कुमार खेतान,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।  
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

-----